

## प्रेस नोट

थाना डिडौली पुलिस द्वारा हत्या की घटना का सफल अनावरण कर हत्याभियुक्त गिरफ्तार, निशादेही पर घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल (तमंचा व खोखा कारतूस 12 बोर) बरामद ।

पुलिस अधीक्षक अमरोहा श्री विनीत जायसवाल के कुशल निर्देशन एवं मार्गदर्शन में अपराध नियंत्रण एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, श्री चन्द्र प्रकाश शुक्ल अपर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व एवं क्षेत्राधिकारी नगर के निकट पर्यवेक्षण में थाना डिडौली पुलिस द्वारा हत्या की घटना का सफल अनावरण कर हत्याभियुक्त गिरफ्तार किया गया जिसकी निशादेही पर घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल (तमंचा व खोखा कारतूस 12 बोर) बरामद किया गया ।

ज्ञात हो कि दिनांक 24.05.2022 को थाना डिडौली क्षेत्र में पाकवाड़ा बार्डर के निकट अकबर फर्नीचर के सामने सर्विस रोड के किनारे रिकू उम्र 19 वर्ष पुत्र पप्पू निवासी ग्राम रायपुर उक्शी थाना अमरोहा देहात का शव मिला जिसके सीने व पेट पर जाहिरा चोट के निशान थे । फोरेंसिक टीम द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य संकलन किये गये । पुलिस द्वारा मृतक का पोस्टमार्टम कराया गया । घटना के सम्बन्ध में मृतक के पिता श्री पप्पू पुत्र मदन निवासी ग्राम रायपुर उक्शी थाना अमरोहा देहात, अमरोहा द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर थाना अमरोहा देहात पर अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध हत्या का अभियोग पंजीकृत किया गया ।

घटना की गम्भीरता को देखते हुये घटना के शीघ्र अनावरण हेतु पुलिस अधीक्षक अमरोहा श्री विनीत जायसवाल द्वारा क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में टीमों का गठन करते हुए थानाध्यक्ष डिडौली को निर्देशित किया जिसके क्रम में पुलिस टीम के अथक प्रयासोपरांत घटना का सफल अनावरण करते हुये थाना डिडौली पुलिस द्वारा आज दिनांक 31.05.2022 को जांच के दौरान प्रकाश में आये अभियुक्त अमित कुमार बाल्मीकि पुत्र हरिश्चंद्र उर्फ हरचंदा निवासी हसनपुर कलां थाना डिडौली जनपद अमरोहा को गिरफ्तार किया गया जिसकी निशादेही पर घटना में प्रयुक्त तमंचा 12 बोर व 02 खोखा कारतूस 12 बोर (आलाकत्ल) बरामद किया गया । गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना डिडौली पुलिस द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ विवरण:- पूछताछ पर अभियुक्त अमित कुमार बाल्मीकि द्वारा रिकू की हत्या करने की घटना को स्वीकार करते हुये बताया कि रिकू मेरी बेटी पर गलत नजर रखता था और कभी भी मेरे घर आ जाता था जो मुझे बर्दाश्त नहीं था । दिनांक 23.05.2022 को योजनाबद्ध तरीके से मैंने रिकू को शराब पिलायी और सड़क किनारे अकबर फर्नीचर के सामने मौका मिलने पर तमंचे से गोली मारकर उसकी हत्या कर दी । अभियुक्त की निशादेही पर आलाकत्ल तमंचा बरामद किया गया । पुलिस टीम द्वारा अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. अमित कुमार बाल्मीकि पुत्र हरिश्चंद्र उर्फ हरचंदा निवासी हसनपुर कलां थाना डिडौली जनपद अमरोहा ।

बरामदगी:-

1. तमंचा 12 बोर व 02 खोखा कारतूस 12 बोर (आलाकत्ल) ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. थानाध्यक्ष सुनील कुमार मलिक थाना डिडौली जनपद अमरोहा ।
2. का0 252 रोहित कुमार थाना डिडौली जनपद अमरोहा ।
3. का0 1089 नागेन्द्र सिंह थाना डिडौली जनपद अमरोहा ।
4. का0 297 गौरव कुमार थाना सैदनगली जनपद अमरोहा ।

PRO CELL AMROHA